



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड(iii)  
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 9]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 6, 1981/वैशाख 16, 1903

No. 9]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 6, 1981/VAISAKHA 16, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 6 मई, 1981

आ० अ० 6(अ).—उत्तर प्रदेश में 2-गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा के त्यागपत्र दे देने के परिणामस्वरूप उस मदन में एक स्थान रिक्त हो गया है।

संलग्न लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उप धारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन-क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि ऐसे हूई शिक्षित को भरने के लिए 18 जून, 1981 (बृहस्पतिवार) से पूर्व, उक्त अधिनियम के शीर्ष तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दे।

[सं० 100/उ०प्र०-नो०स०/4/80(1)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 6th May, 1981

O.N. 6(E).—Whereas a vacancy has occurred in the House of the People by the reason of the resignation of Shri H. N. Bahuguna, a member elected to that House from 2-Garhwal Parliamentary constituency in the State of Uttar Pradesh;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 149 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby calls upon the said constituency to elect a person to fill the said

vacancy before 18th June, 1981 (Thursday) in accordance with the provisions of the said Act and of the Rules and Orders made thereunder.

[No. 190/UP-HP/4/80(1)]

आ० अ० 7(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/उ०प्र०-नो०स०/4/80(1) तारीख 6 मई, 1981 के अनुसरण में 2-गढ़वाल संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से होने वाले उप-निर्वाचन के बारे में :—

- (क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख 13 मई, 1981 (बुधवार);
- (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख 14 मई, 1981 (बृहस्पतिवार);
- (ग) अस्थायित्वाएँ वापस लेने के लिए अन्तिम तारीख 16 मई, 1981 (शनिवार);
- (घ) वह तारीख जिनको, यदि आवश्यक हो, तो मतदान होगा 14 जून, 1981 (रविवार);
- (ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा 18 जून 1981 (बृहस्पतिवार);

नियत करना है।

[सं० 100/उ०प्र०-नो०स०/4/80(2)]

**O.N. 7(E).**—In pursuance of the provisions of section 30 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints, with respect to the bye-election to be held in 2-Garhwal Parliamentary constituency in the State of Uttar Pradesh in pursuance of its notification No. 100/UP-HP/4/80(1), dated the 6th May, 1981.

- (a) 13th May, 1981 (Wednesday) as the last date for making nominations ;
- (b) 14th May, 1981 (Thursday) as the date for the scrutiny of nominations ;
- (c) 16th May, 1981 (Saturday) as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) 14th June, 1981 (Sunday) as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) 18th June, 1981 (Thursday) as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/UP-HP/4/80(2)]

आ० अ० ८(अ):—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना

सं० 100/उ०प्र०-प्रा०स०/4/80(1), तारीख 6 मई, 1981 के अनुसरण में 2-गढ़वाल संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए होने वाले उप-निर्वाचन के लिए 7.30 बजे पूर्वाह्न से 4.30 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो ता मतदान होगा।

[सं० 100/उ०प्र०-प्रा०स०/4/80(3)]

आदेश से,  
के० गणेशन, सचिव  
भारत निर्वाचन आयोग

**O.N. 8(E).**—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby fixes the hours from 7.30 A.M. to 4.30 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the bye-election to the House of the People from 2-Garhwal Parliamentary Constituency to be held in pursuance of its Notification No. 100/UP-HP/4/80(1), dated the 6th May, 1981.

[No. 100/UP-HP/4/80(3)]

By order,  
K. GANESAN, Secy.  
to the Election Commission of India.